

प्रेस नोट

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के अभियान में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के नेतृत्व में दिनांक 13.08.19 को मैव0उ0नि0धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 सूर्यकान्त पंडित, उ0नि0 अंजनी कुमार यादव, उ0नि0 गुरु प्रसाद, उ0नि0 नवनीत नागर, हे0का0 राजेश तिवारी, हे0का0 लालजी राम, का0 धर्मेन्द्र सिंह, का0 अशोक कुमार, का0 धर्मेन्द्र भारद्वाज, का0 दिलीप कुमारके थाने से खाना होकर देखभाल क्षेत्र, शांति सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति करते हुए हर्बट बंधा तकिया तिराहा पर अपराध एवं अपराधियों के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा था कि मुखबिर खास ने आकरसूचनादिया कि साहब बंशी यादव उर्फ बऊकू के बगीचे में कुछ लोग भारी मात्रा में नाजायज शराब बना रहे हैं अगर जल्दी किया जाए तो भारी मात्रा में शराब बरामद हो सकती है। मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वाले मुखबिर खास को साथ लेकर हर्बट बंधा से हनुमानगढ़ी होते हुए मुखबीर के बताए हुए बगीचे के पास पहुंचे तो मुखबीर ने दूर से ही इशारा कर बताया कि साहब य ह वही बगीचा है जिसमें नाजायज शराब कुछ लोग बना रहे हैं। मुखबीर इशारा कर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले एक बारगी दबिश दिये जहां भट्टियां जल रही हैं तथा कुछ लोग लहन उठाकर भट्टियों पर रखेड्रमों में डाल रहे हैं हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगे की 10- 15 कदम जाते जाते एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया तथा झाड़ झंकाड का लाभ लेकर दो व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो अपना नाम वर्मा निषाद पुत्र स्व0 गौरी निषाद निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर बताया। तत्पश्चात कुछ ही दूरी पर एक बगीचे में आग जलता हुआ दिखाई दिया कि पकड़े व्यक्ति व बरामद माल को एसआई गुरु प्रसाद व का0 धर्मेन्द्र सिंह की निगरानी में देकर शेष पुलिस फोर्स को लेकर जलती हुई आग वाले बगीचे में पहुंचे तो देखा कि वहां पर भी 32 जलती भट्टी पर 32 ड्रम नलका लगा हुआ जिसमें कुछ लोग लहन डाल रहे हैं हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगे कि घेर घार कर दो व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया गया तथा कुछ व्यक्ति अंधेरे व झाड़ झंखाड का लाभ लेकर भागने में सफल रहे पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो एक ने अपना नाम सु रेत्तसाहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासी घुनघुन कोठा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर तथा दूसरे ने अपना नाम मोहन निषाद पुत्र स्व0 नाटे निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर बताया । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/19 धारा 272 भादवि0 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- वर्मा निषाद पुत्र स्व0 गौरी निषाद निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर उम्र 47 वर्ष
- 2- सुरेज़ साहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासी घुनघुन कोठा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर उम्र 26 वर्ष
- 3- मोहन निषाद पुत्र स्व0 नाटे निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर उम्र 44 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक – हर्बट बंधा तकिया तिराहा 13.08.2019 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 1- 70 प्लास्टिक के गैलन में 700 लीटर अपमिश्रित नाजायज कच्ची शराब
- 2- प्लास्टिक के झोले में क्रमशः करीब एक किलो व दो किलो यूरिया खाद
- 3- दो प्लास्टिक के झोले में क्रमशः 200 ग्राम व 300 ग्राम नौसादर
- 4- 12 अदद हन्डा (तसला) एल्यूमिनियम,
- 5- 07 अदद ड्रम नलका लगा हुआ

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार पाण्डेय
- 2- व0उ0नि0धर्मेन्द्र कुमार सिंह
- 3- उ0नि0 सूर्यकान्त पंडित
- 4- उ0नि0 अंजनी कुमार यादव
- 5- उ0नि0 गुरु प्रसाद
- 6- उ0नि0 नवनीत नागर
- 7- हे0का0 राजेश तिवारी
- 8- हे0का0 लालजी राम
- 9- का0 धर्मेन्द्र सिंह
- 10- का0 अशोक कुमार (राजेश कुमार पाण्डेय)
- 11- का0 धर्मेन्द्र भारद्वाज प्रभारी निरीक्षक
- 12- का0 दिलीप कुमार थाना- राजघाट, गोरखपुर